CIN: L65923DL1982PLC290287

10th August, 2023

To,
The Listing Department,
BSE Limited,
PhirozeJeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001
(Scrip Code: 539946)

Subject: Newspaper Clippings of the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2023

ISIN: INE217E01014

Dear Sir(s),

With reference to the captioned subject and our intimation dated 09<sup>th</sup> August 2023, we enclose herewith the newspaper clippings of the Un-Audited Financial Results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the quarter ended on 30<sup>th</sup> June, 2023 published by the Company in the newspapers named as "**Financial Express**" (English Language) and "**Jansatta**" (Hindi Language) dated 10<sup>th</sup> August, 2023.

This is for your information and records.

Thanking you,

For BAZEL INTERNATIONAL LTD.

PREET Digitally signed by PREETI PURI Date:

I PURI 2023.08.10
11:43:23 +05'30'

Preeti Puri

(Company Secretary & Compliance Officer)

Office Address: II-B/20, First Floor, Lajpat Nagar, New Delhi- 110024

Regd. Office: II-B/20, First Floor, Lajpat Nagar, New Delhi-110024 Phone No.: 011-46081516, E-mail: bazelinternational@gmail.com

Website: www.bazelinternationalltd.com

GST No.: 07AACCB1474G1ZX

**FINANCIAL EXPRESS** 

## A K BAJAJ INVESTMENT PVT. LTD

CIN: U65993UP1980PTC004972 Registered off: -A-95, Sector-65, Noida - 201309, UP Ph. No.: 0120-4506900, E-mail: maheshratra@amritcorp.com

NOTICE-Changed of registered office within the same State NOTICE is hereby given to the General Public that the Company changed its registered office under section 12 of the Companies Act, 2013 on 17th July 2023 from existing address i.e. "56, Model Town, Ghaziabad-201009 (U.P)" to the new address "A-95, Sector-65, Noida - 201309, Distt. Gautam Budh Nagar, State of Uttar Pradesh", within the same State and within the same jurisdiction of the Registrar of Companies, U.P., Kanpur.

For and on behalf of the A K Bajaj Investment Pvt. Ltd Sd/-

(J. C. Rana) Date: 9th August, 2023 Director Place: Noida DIN NO.: 00026190

Legal Cell HDFC BANK Plot # 31, Najafgarh Industrial Area, Tower-A, 1st Floor, Shivaji Marg, Moti Nagar, New Delhi - 110015 POSSESSION NOTICE APPENDIX IV [RULE 8(1)]

Whereas, the undersigned being the authorized officer of the HDFC BANK LTD, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated 08/05/2023 calling upon the borrower(s) 1. M/s Vishwakarma Enterprises Through Its Proprietor - Mr. Rames Kumar 2. Mr. Ramesh Kumar S/o Sh. Matadeen 3. Mrs. Sushila Devi W/o Sh. Ramesh Kumar to pay the amount mentioned in the notice Rs. 21,79,136/- (Rupees Twenty One Lakhs Seventy Nine Thousand One Hundred Thirty Six Only/-) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules 2002 on thi 09-Aug-2023 (Wednesday). The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to charge of HDFC BANK LTD. for an amount of Rs. 21,79,136/- (Rupees Twenty One Lakhs Seventy Nine Thousand One Hundred Thirty Six Only/-) and interest thereon together with expenses and charges etc, less amount paid if any. The borrower's attention is invited to provisions of subsection (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Residential House No. 1007, Measuring 300 Sq. Mtrs, Situated In Sector-6, Part-I, Huda Dharuhera, Sub-Teh. Dharuhera, Distt. Rewari. Bounded Under As: North: Road, East: Othe Plot, South: Other Plot Vacant, West: Plot No. 1008

DATE: - 09/Aug/2023, PLACE: - REWARI HARYANA Authorised Officer, HDFC Bank Ltd.



REGD. OFF.: A-1, UPSIDC INDL. AREA, NANDGAON ROAD, **KOSI KALAN, DISTT. MATHURA - 281 403** 

CIN: L27104UP1984PLC023979 NOTICE

JINDAL SAW LIMITED

## (for the attention of Equity Shareholders of the Company)

Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This notice is hereby given pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016 regarding transfer of all the shares in respect of which dividend has been unpaid and not claimed by the shareholders for the seven consecutive years or more to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

In view of above provisions, the Company had intimated to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority under the said Rules for taking

The concerned shareholders holding shares in physical form may note that the Company would be issuing duplicate share certificates in lieu of the original shares certificates held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority and upon such issue of duplicate shares, the original share certificates shall stand cancelled. Similarly, the shares held in demat mode shall also be transferred to IEPF Authority by signing the demat slips by the Company officials on behalf of such shareholders. The shareholders may further note that unclaimed shares transferred to IEPF Authority including all the benefits accruing on them, if any, can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules

You are, therefore, informed to claim your unpaid/unclaimed dividend from 2015-2016 immediately or write otherwise to the Company. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 20th January 2024 or such other date as may be extended the Company shall, with a view to comply with the requirements of the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by due date as per the procedure stipulated in the Rules.

The copy of the above Rules have been up-loaded by the Company at its website (i.e www.jindalsaw.com) along with details of such shareholders and the shares due for transfer to IEPF Authority. You may visit the website of the Company for necessary information in this regard. In case of shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may

contact the Company Secretary, Jindal Saw Limited at 28, Shivaji Marg, Najafgarh Road, Near Karampura Delhi- 110015 Tel: 011-61462259, 011-61462237, E-mail investors@jindalsaw.com For JINDAL SAW LIMITED

Place: New Delhi Date: 10 Aug 2023

YES BANK

Registered and Corporate Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055 India Website: www.yesbank.in Email: communications@yesbank.in CIN: L65190MH2003PLC143249

**SUNIL K. JAIN** 

FCS: 3056

**COMPANY SECRETARY** 

### Sale notice for sale of immovable properties U/r 8(6) read with Rule 9(1) of SARFAESI Rules

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guaranto (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Yes Bank Ltd. i.e Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" basis on September 14,2023 for recovery of Rs. 25,78,678.62 (Rs. Twenty Five Lakh Seventy Eight Thousand Six Hundre Seventy Eight and Paise Sixty Two Only) due as on 07-November-2022 subject to furthe interest and charges at contracted rate, due to the Secured Creditor from Borrower (s) and Guarantor (s), Inspection of the mentioned properties can be done on September 02, 2023 from 11:00 am to 2:00 pm by the interested parties/ tenderer after seeking prior appointment with Authorized Officer.

Description of property

Name of Borrower/ Guarantor (s) / security provider/s	M/s Mansa Packers (Borrower)     Through its proprietor Aradhna Devi     139, Shakti Vihar, Phase-2, Salempur, Mahdood, Bhadrabad Haridwar, Uttarakhand-249402     Ms. Aradhna Devi (Co-borrower 1)     Plot No. 68, Shakti Vihar, Phase-2, Salempur, Mahdood, Bhadrabad, Haridwar, Uttarakhand-249403     Mr. Ravi Chandra Mishra (Guarantor/Mortgagor)     S/o Sh. Ashok Kumar Mishra     Plot No. 68, Shakti Vihar, Phase-2, Salempur, Mahdood, Bhadrabad, Haridwar, Uttarakhand-249403
Amount Due as on	Rs. 25,78,678.62 (Rs. Twenty Five Lakh Seventy Eight Thou
07-November-2022	Six Hundred Seventy Eight and Paise Sixty Two Only).

Description of Residential property measuring 630 Sq. Ft. i.e 58.55 Sq. Mtrs Property bearing plot no. 68, belonging to Khasra No. 1365, situated at Shakt Vihar, Phase-2, Village Salempur Mahdood, Pargana Roorkee Tehsil & Distt. Haridwar Reserve Price (Rs) Rs. 20,81,000/- (Rs. Twenty Lakh Eighty One Thousand Only) Earnest Money Rs. 2,08,100/- (Rs. Two Lakh Eight Thousand One Hundred Only) Deposit (Rs.)

Date of Physical Possession: 21-June-2023 Date of Demand Notice: 07-November-2022 Last Date for September 12,2023 till 3.00 pm submission of BID Date & Time of September 14,2023 from 11:00 am to 2:00 pm with extensions of 5 E-Auction minutes each

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in http://10.0.49.5/about-us/media/auction-property- Secured Creditor's website i.e. In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/e-bidding catalogue or Inspection of

the Immovable Properties/Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Ajay Rana or Email: and Officials of M/s. e-Procuremen Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Web Portal Address https://sarfaesi.auctiontiger.net Bidder Support Numbers: +91 9265562821/18 8 9978591888, 079- 68136880/68136837. E-mail: support@auctiontiger.net and ramprasad@auctiontiger.net, Contact person: Mr. Ram Sharma -9978591888.

As contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset.

# SALE NOTICE TO BORROWER/GUARANTORS

The above shall be treated as Notice U/r. 9(1) read with 8(6) of Security Interes (Enforcement) Rules, 2002, to the Obligants to pay the same within 30 days from the date of publication. For Yes Bank Ltd.

Date: 10/08/2023 Ajay Rana, Place: New Delhi Vice President "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 1) 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

FORM NO.7 [See Regulation-15(1)(c)]

Case No.: TRANSFER APPEAL/33/2022 Exh. No.: 86 UCO BANK MS PRATIMA SHARMA AND ANR

 MS PRATIMA SHARMA AND ANR. W/O NIRANJAN SHARMA, R/o C-6/77, 1st Floor, Sector-5, Rohini, Delhi-110085 2. SHRI NIRANJAN SHARMA S/O SHRI AWADHESH SHARMA, R/o C-6/77, First Floor, Sector-5, Rohini, Delhi-110085. NOTICE

2. Take notice that the said appeal (copy enclosed) will be taken up for hearing by the Tribunal at 10:30 a.m. or at such time immediately thereafter according to the convenience of the Tribunal on 30/08/2023.

WHEREAS the above named appellant has preferred an appeal under RDB Act

against the order passed by the Recovery Officer in RC/251/2017 under section 30 of

3. You are hereby required to appear in person or by a Pleader / Advocate duly instructed, as the case may be at the aforesaid time and place.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this 08/08/2023.

Signature of the Officer Authorized to issue Summon Note: Strike out whichever is not applicable .

BAZEL INTERNATIONAL LTD.

Registered Office: II-B/20, First Floor, Lajpat Nagar, New Delhi-110024 CIN: L65923DL1982PLC290287

E-mail Id: bazelinternational@gmail.com; Contact no: 011-46081516; Website: www.bazelinternationalltd.com Extract if Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023

**Quarter Ended** Sr. **Particulars** Year ended 30-06-2023 30-06-2022 31-03-2023 31-03-2023 (Un-audited) (Audited) (Un-audited (Audited) Total Income from operations 137.35 92.39 26.36 213.04 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or 115.91 -149.7 (111.93)Extraordinary items) 115.91 -149.7 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional 8.07 (111.93) and/or Extraordinary items) 85.77 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional -140.78 5.97 (112.83)and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / 85.77 -153.96 (14.61)(120.75) (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2) Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-) 195.05 195.05 145.50 195.05 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the 4146.55 4146.55 1319.7 4146.55 Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): 0.41 (7.51) Basic: 4.4 -9.37 Diluted: -9.37 0.41 (7.51)

Place: New Delhi

Date: 07th August, 2023

- The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the company in its meeting held on 07th August, 2023.
- Figures for the previous quarter/year have been re-grouped/re-arranged, wherever necessary.
- Limited review of the above results has been carried out by the Auditors.

There is only one segment for the products of the company.

On behalf of Board For BAZEL INTERNATIONAL LTD. Sd/-Pankai Dawar

(Managing Director) DIN: 06479649

(Rs. In Lakhs)

Sd/-

(Rs. In Lakhs)

## **DURGESH MERCHANTS LIMITED** Registered Office: D-251, Ground Floor, Defence Colony, New Delhi 110024

CIN: L65923DL1984PLC248322 E-mail Id: durgeshmerchants@gmail.com; Contact no: 011-68888824; Website: www.durgeshmerchantsltd.com

Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2023

Year ended **Particulars Quarter Ended** No. 30-06-2022 31-03-2023 31-03-2023 30-06-2023 (Un-audited) (Un-audited) (Audited) (Audited) Total Income from operations 30.47 13.89 6.50 32.75 3.65 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or 20.83 1.71 1.11 Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional 20.83 1.11 3.65 and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or 15.41 2.07 0.82 3.51 Extraordinary items) 27.25 Total Comprehensive Income for the period [Comprising 15.41 2.07 22.91 Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each) 280.25 280.25 280.25 280.25 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the financial year 2022-2023 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): 0.55 0.03 (a) Basic 0.07 0.13 (b) Diluted 0.55 0.07 0.03 0.13


Notes: The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind AS-108 is not required. The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held

on 08th August 2023. The Statutory Auditor of the Company have provided Audit Report for the same. Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods.

Indian Accounting Standards are applicable on the Company w.e.f 1st April, 2019.

On behalf of Board For DURGESH MERCHANTS LIMITED

Rohit Ahuja (Managing Director) Date: 08/08/2023 DIN: 07859817 Place: New Delhi



**MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED** Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, NO – U65922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo, Plot N C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517, Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com,

PUBLIC NOTICE – AUCTION CUM SALE OF PROPERTY Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002

In exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer of the Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of under mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Asset") and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as "Borrowers") and further It has been decided to sell the Secured Asset on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse" basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers.

Sr. No.		Description of property	Possession Type & Date	Total O/s Amount (Rs.) Future Interest Applicable	Reserve Price (Rs.)	E.M.D. (Rs.)
1.	LAN No.: 15100079628 Gaurav Kumar Chote Jatav Chotelal Dharmpal	KHASRA NO-161, VIL-DOMAI, HAPUR, UTTAR PRADESH, GHAZIABAD, 245101, INDIA	Constructive Possession 13-April-2022	Rs.436117.00/- as on 09-August-2023	Rs. 8,00,000/-	Rs. 80,000/-
l <sub>m</sub>	anastian Data & Times 24 Aus	rust 2022 8 25 August 2022 at 10 00 AM to 05 00 DM				

Inspection Date & Time: 24-August-2023 & 25-August-2023 at 10.00 AM to 05.00 PM Auction Date: 15-September-2023 10.00 AM to 03.00 PM & Last date for Submission of Bid: 14-September-2023

Place of Sale Ghaziabad Branch: B-2, First Floor, Rdc, Rajnagar, Above Sbi Bank, Ghaziabad, (Up) - 201001

Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above. Terms & Conditions of public auction:-Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as per extant guidelines under SARFAESI Act, 2002 & also the terms and condition mentioned in the offer/tender document to be submitted by the intending bidders. 2) The property will be sold on "As is where is" and "As is what is" "whatever there is" and "no recourse" condition, including encumbrances, if any, 3) The properties under auction can be inspected on the date & time specified above. For any queries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to The Authorised Officers at respective locations on above mention contact numbers. The interested buyers may send theirs offers for the above property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai favoring "Muthoot Housing Finance Company Limited", towards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price. 4) Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax department AND bidder's identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card, Driving license etc. 5) In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 6) The bidders present in the auction would be allowed to increase their offer multiples of Rs.10000/- in addition to Reserve Price fixed. 7) All dues and outgoings, i.e., Municipal Taxes, Maintenance / Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues including Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser. 8) The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the final bid amount (after adjusting 10% of the E.M.D. already paid) within next working days from the acceptance of the offer by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which, the earnest money deposit will be forfeited. 9) The balance 75% of the Sale price shall have to be paid within 15 days of conveying the confirmation of the sale to the successful Purchaser by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized Officer. 10) The Authorized Officer reserves his right to vary any of the terms and condition of this notice for sale, without prior notice, at his discretion. 11) In case, all the dues together with all cost, charges and expenses incurred by the Secured Creditor are tendered by the above name borrower / co-borrower till one working day prior to the date of Auction then the property will not be sold and all the bids received from the prospective bidders shall be returned to them without any liability / claim against M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd. The borrower/guarantor/mortgagor are hereby given STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9 of The Security Interest (Enforcement) Rules of SARFAESIACT to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with upto date interest and expenses within above mentioned days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. Borrower/s are also requested to remove their uncharged belongings from the property within 30 days' time else it will be removed from property on their risk and cost. Place: UTTAR PRADESH, Date: 10-August-2023 Sd/- Authorised Officer, For Muthoot Housing Finance Company Limited

**IndusInd Bank Limited** 

Registered office: 2401, Gen. Thimmayya Road, (Cantonment), Pune – 411 001Branch Office: Sangam Complex, Ground Floor, Off. Mirza Ismail Road, Jaipur – 302006

**POSSESSION NOTICE** 

(As per Rule 8(2) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued Demand Notices upon the Borrowers /Co-borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned The Borrower/Co-borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and

any dealings with the property will be subject to the charge of IndusInd Bank Limited.

Name and Address of Borrowers & Date of	Description of Property	Amount demanded in Possession
Demand Notice	(ies) & Date of Possession	Notice (Rs.)
1. MUKESH AMAR SINGH, 2. VIMLESH AMAR SINGH, H. NO. 5546, GALI NO. 5, NEW CHANDRAWAL JAWHAR NAGAR, NORTH DELHI, DELHI D UNIVERSITY, DELHI- 110007. Demand Notice Date: 25- Aug 2022 Loan No. RHAHDEL000060505 (PR00764482)	All the piece and parcel of property bearing BUILT UP PROPERTY ON THIRD FLOOR WITH ITS EXCLUSIVE ROOF /TERRACE RIGHTS UP TO SKY , BUILT ON LAND AREA MEASURING 35.95 SQ. MTRS. A PART OF BUILT UP FREE HOLD PROPERTY BEARING MUNICIPAL NO.4788 AND 4786 SITUATED AT GALI DR.MITRA WALI, ARYA PURA, ROSHANARA ROAD, SUBZI MANDI, DELHI. Date of Possession: 7-Aug-2023	Rs. 1163131/- (Rupees Eleven Lakh(s) Sixty Three Thousand One Hundred Thirty One Only as on 23rd August 2022
1. MADAN SHARMA, 2. PRATIBHA SHARMA PLOT NO 136/ UG- 2, VIKRAM ENCLAVE, SHALIMAR GARDEN, SAHIBABAD, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201005. Demand Notice Date: 30- Jun-2021 Loan No. RHAHDEL000048533 (PR00764442)	ALL THE PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING FLAT NO UG-02 ON UPPER GROUND FLOOR WITHOUT ROOF RIGHTS, LIG BACK SIDE, COVERED AREA ADMEASURING 37.16 SQ.MTRS., PLOT NO 136 ADMEASURING 111 SQ. YDS. SITUATED AT RESIDENTIAL COLONY VIKRAM ENCLAVE EXTN., VILLAGE PASONDA, PARGANA LONI, DISTRICT GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201102 AND PROPERTY BOUNDED AS UNDER EAST- PLOT NO. 137, WEST- OTHERS PLOT, NORTH- OTHERS PLOT, SOUTH- ROAD 30 FEET WIDE. Date of Possession: 5-Aug-2023	Rs. 1158987/- (Rupees Elever Lakh(s) Fifty Eight Thousand Nine Hundred Eighty Seven Only) as on 30th June 2021
I. SUBHASH MAHANTA, C/O SAHDEV SAINI, H.N.558, 1ST FLOOR, ROOM NO9, GALI NO.1, CHHALERA SECTOR -44, NOIDA, JTTAR PRADESH - 201301. 2. RIJU MONI BORAH, VILL TOWN KHUTIKATIA, WAID NO L9, PS NAGAON, SADAR SUB, KHUTIKATIA, NAGAON, ASSAM - 782428. Demand Notice Date: 16- Nov-2022 Joan No. RHAHDEL000061817 PR007644490)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Rs. 1043164/- (Rupees Ten Lakh(s) Forty Three Thousand One Hundred Sixty Four Only) as on 14th November 2022

Place: Delhi/NCR (Authorized Officer) Date: 10/08/2023 IndusInd Bank Limited.

Shubham Corporate Office : 425, Udyog Vihar Phase IV, Gurgaon-122015 (Haryana)
Ph. : 0124-4212530/31/32, E-Mail: customercare@shubham.co website : www.shubham.co

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Whereas the undersigned being the authorized officer of the Shubham Housing Development Finance Company Limited (hereinafter called Shubham) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon borrowers to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the

undersigned has taken possession of the property described hereinbelow in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the SecurityInterest Enforcement) Rules, 2002 The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Shubham Housing Development Finance Company Limited for an amount detailed below

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Details are as below: Loan No/Borrower(s), Date of Secured Asset Demand Notice Amount Demand Notice Affixation Co-Borrower

D	CB Bank Limited				
	Place:- Gurgaon, Date:- 09-08-2023			Authoriz SHUBHAM HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMP	ed Officer PANY LTD
	Rahul Kumar, Kumari Anjani Prajapati	23,90,267/-	20-05-2023	Khurd, Block-P, Mohan Garden, Uttam Nagar, West Delhi-110059	07-06-202

A-Set House, 7/56, D.B.Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005

E- AUCTION SALE NOTICE [Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002]

to redeem the secured assets.

DCB BANK

NAGAR, MEERUT, UTTAR PRADESH - 250002.

E-Auction sale notice for sale of immovable Assets under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest

(Enforcement) Rule, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s), co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB BANK

LTD., The Authorized Officer of the Bank has taken the physical possession under the provision of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The property will be sold by tender cum public E-auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest. charges and cost etc. as per the below details:-The property will be sold "as is where is" and "as is what is" condition.

Sr. No	Name of the Borrower & Guarantors	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)	Date of E-Auction	Type of Possession
1	RISHI AHUJA, RAJ AHUJA and ROXY AGENCIES	Rs.3400000/-(Rupees Thirty Four Lakh Only)	Rs.340000/-(Rupees Three Lakh Forty Thousand Only)	29-08-2023	Physical
SQ.	<b>ails of Mortgage Property:</b> ONE HALL O MTRS BUILT ON PROPERTY BEARING .WRI BAZAR NEW DELHI – 110006.				
2.	MANEET PRUTHI, ASHA DEVI, MY FASHION INDUSTRY and MUKESH KUMAR	Rs.4600000/-(Rupees Forty Six Lakh Only)	Rs.460000/-(Rupees Four Lakh Sixty Thousand Only)	29-08-2023	Physical
	ails of Mortgage Property: ENTIRE THIRI WARKA, NEW DELHI – 110075.	D FLOOR (WITH ROOF RIGHTS),	PORTION OF PROPERTY NO. B-3	12, THIRD FLO	OR, SECTOR
3.	MR ABHISHEK BALUNI and ARCHANA	Rs.3300000/-(Rupees Thirty Three Lakh Only)	Rs.330000/-(Rupees Three Lakh Thirty Thousand Only)	29-08-2023	Physical
	a <b>ils of Mortgage Property:</b> FLAT SI <sup>-</sup> RAKHAND-248001 (AREA ADMEASURI		CIPAL NO.38, AARAGHAR, NEV	V NO.84/87,	DEHRADUN,
4.	ARIES HEALTH CARE, MANISH SRIVASTAVA and REETA	Rs.2350000/-(Rupees Twenty Three Lakh Fifty	Rs.235000/-(Rupees Two Lakh Thirty Five Thousand Only)	29-08-2023	Physical

Rs.450000/- (Rupees Four | 29-08-2023 | Physical M/S SUMERU PROCESSORS PVT. Rs.4500000/-(Rupees Forty LTD. MR. NIRAJ JHA. MR. DHIREN Five Lakh Only) Lakh Fifty Thousand Only) NAVLAKAHA and MR. FARHAD SURI Details of Mortgage Property: FLAT NO.G-2, GROUND FLOOR, JEEVAN APARTMENTS OF BUILDING BEARING PROPERTY NUMBER 16A, JAMIA NAGAR, OKHLA, NEW DELHI-110025 KUSUM SHARMA and SUSHIL | Rs.1500000/-(Rupees Fifteen Rs.150000/-(Rupees One Lakh 29-08-2023 Physical Lakh Only) Fifty Thousand Only)

Details of Mortgage Property: PLOT NO A 68/1, SHOP NO. 225, 2 ND FLOOR. ADITYA PALACE EXTENSION. GARH ROAD. SHASTRI

Thousand Only)

Details of Mortgage Property: RESIDENTIAL PROPERTY NO. 18, PART CHARUL ENCLAVE, KHASRA NO. 86, MAUZA-KHARAI AGRA

	AR PRADESH - 282001				
7.	SANGEETA and MANOJ KUMAR	Rs.700000/-(Rupees Seven		29-08-2023	Physical
9 19		Lakh Only)	Thousand Only)	99	- 100 - 100
Deta	ails of Mortgage Property: HOUSE AT KH				
8.	MR NEERAJ KUMAR and KIRAN DEVI	` .		29-08-2023	Physical
II .		Lakh Fifty Thousand Only)	Five Thousand Only)		

Details of Mortgage Property: HO NO-198 KHASRA NO-240 PUSHPANJALI COLONY, LONI GHAZIABD, UTTAR PRADESH - 201102 Rs.1350000/-(Rupees Thirteen Rs.135000/-(Rupees One Lakh 29-08-2023 Physical VIJAY and POONAM DEVI Thirty Five Thousand Only) Lakh Fifty Thousand Only) Details of Mortgage Property: PART OF KHASRA NO. - 251 M2, VILLAGE - BISNOLI ROYAL BALAJI ENCLAVE - II PARGANA DADRI DISTT.

G.B. NAGAR NOIDA UTTAR PRADESH - 201307 M/s Shri Ganesh Pulp And Paper Pvt Rs.5500000/-(Rupees Fifty Rs.550000/-(Rupees Five Lakh 29-08-2023 Physical Ltd (through Its Director Mr Ravi Five Lakh Only) Fifty Thousand Only) Mittal) And M/s Shri Ganesh Pulp and Paper Pvt Ltd (through Its Director Mrs Muskan Goyal)

Details of Mortgage Property: A-20/5 MAIN CHETRAM GALI MAUJPUR NEW DELHI – 110053. B C ENTERPRISES, BALBIR SINGH, Rs.3060000/-(Rupees Thirty Rs.306000/-(Rupees Three 29-08-2023 Physical ANAR DEVI and BHUPENDER KUMAR Lakh Sixty Thousand Only) Lakh Six Thousand Only) Details of Mortgage Property: SHOP NO PLOT NO 13, PART OF KHASRA NO 7/15 (8-2), MUAZA-GAUNCHHI, TEH & DIST,-FARIDABAD

Inspection Date and Time: - of all properties from 21-08-2023 to 25-08-2023 Between 11:00AM to 04:00PM contact to Mr.Ajay kumar and Mr. Pramod Chand on 8699755500 and 9990338759 between 11am to 6pm.

Date and time of submission of EMD of EMD on or before 28-08-2023 up-to 5Pm, with request letter of participation KYC, Pan Card, Proof of EMD at email id pramod.chand@dcbbank.com. aiav.kumar6@dcbbank.com

The intending purchasers/bidders are required to deposit EMD amount either through NEFT/RTGS in the name of the beneficiary, DCB Bank LTD, A-Set House, 7/56, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, A/C Name RAOU Non PDC Collection, Account No. 0462955100223. IFSC Code DCBL0000046. Branch New Delhi.

TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION (1) (Contact SHEKHAR SINGH - 9711522275, 7428695102, e-mail id: shekhar.s@cartradeexchange.com at their web

https://eauction.samil.in on the dates as mentioned in the table above with Unlimited Extension of 5 Minutes. Bidders are advised to check detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids refer to the link https://www.dcbbank.com/ cms/showpage/page/customer-corner. (2) The interested bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance, which is

mandatory for e-bidding, from auction service provider (SAMIL) Prospective bidders may avail online training on e-auction from their registered mobile number only. (3) Online E-auction participation is mandatory in the auction process by making application in prescribed format which is available

along-with the offer/tender document on the website.

**Authorized Officer** DCB Bank Limited

Place: Delhi, UP, UK and Haryana New Delhi

**HARYANA 121001** 

Date: 10.08.2023

financialexp.epap.in

मर्यादा कॉमशियल एंटरप्राइजेज ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड पंजी. कार्या. : 106, (प्रथम तल), मधुबन टावर, ए-1, वी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110092 फोन : 91-11-49901667, वेब : www.marvadainvestment.in (सीआईएन: एल65993डीएल1982पीएलसी013738)

	30 जून, 2023 का समाप्त ातमाहा हतु एकल अ	लखापराक्षित्वावत्त	ाय पारणामा का	विवरण	(भारतीय रूपयों में)
क्र.	विवरण		एकल	परिणाम	
₹.		तिमाही समाप्त 30—06—2023 (अ—लेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 31—03—2023 (लेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30—06—2022 (अ—लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31—03—2023 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	4,205,594.00	999,877.00	191,459.00	4,643,137.00
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों से पहले)	3,370,196.00	281,855.00	(4,123,743.00)	1,493,265.00
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पहले (अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद)	3,370,196.00	281,855.00	(4,123,743.00)	1,493,265.00
4 5	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद) अवधि हेत् कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेत् लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा	3,374,378.00	283,549.00	(4,123,743.00)	1,494,959.00
"	अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	4,711,573.00	132,464.00	(5,250,460.00)	2,680,385.00
6	इक्विटी शेयर पूंजी	12,450,000	12,450,000	12,450,000	12,450,000
7	आरक्षित (पुर्नमूल्यन आरक्षित छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है				72,836,788
8	अर्जन प्रति शेयर (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक का)				
	(जारी और बंद प्रचालनों हेतु) 1. मूल :	2.71	0.23	(3.31)	1.2
	2. तेनुकृत :	2.71	0.23	(3.31)	1.2
नोट्स	न : क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए	) विनियमावली, 20	15 के विनियम 3	3 के तहत स्टॉक	एक्सचेन्ज में प्रस्तुत
	गा। विस्तृत विमानी गुनिणामों का गांव है। विमानी गुनिणामों का गांव विकास				

किए गए विस्तृत तिमाही परिणामों का सार है। तिमाही परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.msei.in पर तथा कम्पनी की | वेबसाइट www.maryadainvestment.in पर भी उपलब्ध है। ख) – अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों का समायोजन. लाभ और हानि के विवरण में. आईएनडी–एएस नियमावली / एएस नियमावली. जो भी लाग है. के अनसार किया गया है।

वास्ते, मर्यादा कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

डीआईएन : 03114586

(T) IDBI BANK

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 09-08-2023

खुदरा वसूली, 4/65 भू तल, करोल बाग नई दिल्ली - 110005, दूरभाष : 011 - 46465263, 9810449799 साकेतिक अधिग्रहण सूचना

एतदुद्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ९ के साथ पठित धारा १३(१२) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत सुचित किया जाता है कि बैंक ने निम्नलिखित ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता / गारंटर को निम्न तालिका में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें उनसे उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चुंकि, वे निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उन्हें तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षिक्तयों के प्रयोगान्तर्गत, ऋणकर्ता के नाम के समक्ष अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन

न करें। सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, उनके अर्थात ऋणकर्ताओं के नामों के समक्ष अंकित राशि और इस राशि पर भावी ब्याज व शूल्कों हेत् आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

क्री.	****	। माग सूचना	स्राकातक	बंधककृत संपात्त	धारा 13(2) क अंतगत			
क्र. सं.	गारंटर के नाम तथा	की तिथि	अधिग्रहण की	का विवरण	सूचना में अंकितानुसार			
	संपत्ति के स्वामी		तिथि		बकाया राशि			
1	श्री यशोदा नदन् त्रिवेदी (ऋणकर्ता),	10.05.2023	08.08.2023	मकान न. 10, तृतीय तल,	एचएल – सावधि ऋण			
	श्रीमती गीता त्रिवेदी (सह—ऋणकर्ता),			नंनद रोड, आदर्श नगर,	रु. 40,27,892 ∕ —			
	श्री शशांक शंकर त्रिवेदी			दिल्ली—110033	09.05.2023 के अनुसार			
	(सह—ऋणकर्ता)							
2.	मैसर्स वाई. एन. त्रिवेदी एंड सन्स	10.05.2023	08.08.2023	ब्लॉक ए — ४५९, हाथीवल	नकद ऋण —			
-	(ऋणकर्ता) तथा	1010012020	00.00.2020	पार्क, झूले लाल मंदिर के	₹. 21,73,874/-			
	यशोदा नंदर्न त्रिवेदी			समीप, जहांगीरपुरी, नई	28.02.2023 के अनुसार			
	(फर्म की स्वामिनी)			दिल्ली—110033				
1 <del>6</del> ,	गांक : 09—08—2023			1/2	हस्ता./-			
स्थि	ान : नई दिल्ली			प्राधिकृत अधिका	री, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड			

बेजल इन्टरनेशनल निमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: II-बी/20, प्रथम मंजिल, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024 CIN: L65923DL1982PLC290287

ई:मेल आईडी: bazelinternational@gmail.com; दूरभाष: 011-46081516; वेबसाइट: www.bazelinternationalltd.com

	जून 30, 2023 को समाप्त तिमाही के उद	जून 30, 2023 को समाप्त तिमाही के उद्धरित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम (राशि लाखों में)						
क्र०	विवरण	सम	ाप्त तिमाही		समाप्त वार्षिक			
No.		30-06-2023 (अन—अंकेक्षित)	31-03-2023 (अंकेक्षित)	30-06-2022 (अन—अंकेक्षित)	31-03-2023 (अंकेक्षित)			
1	संचालन से कुल आय	137.35	92.39	26.36	213.04			
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	115.91	-149.7	8.07	(111.93)			
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	115.91	-149.7	8.07	(111.93)			
4	कर के बाद पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	85.77	-140.78	5.97	(112.83)			
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/ (हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] (संदर्भ नोट न० 2)	85.77	-153.96	(14.61)	(120.75)			
6	चुकता इक्वीटी शेयर कैपीटल (सममूल्य रू० 10/- प्रत्येक)	195.05	195.05	145.50	195.05			
7	रिर्जव (रिवैल्सूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में में दिखाया गया	4146.55	4146.55	1319.7	4146.55			
8	प्रति शेयर आय (रू० 10/- के प्रत्येक) (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए):							
	मूलः	4.4	-9.37	0.41	(7.51)			
	तरलः	4.4	-9.37	0.41	(7.51)			

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 07 अगस्त, 2023

- 1. सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत अपेक्षित 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का विस्तारित प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किये गये।
- 2. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल की 07 अगस्त, 2023 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित

KALYAN CAPITALS LIMITED

(formerly known as Akashdeep Metal Industries Limited)

CIN: L28998DL1983PLC017150

Registered Office: P3-203, Central Square, Bara Hindu Rao, Central Delhi-110006

Website: www.akashdeepmetal.in, Email: info.akashdeep14@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2023

30.06.2023

**Un-Audited** 

604.35

217.53

217.53

175.04

175.04

1,050.26

0.33

30.06.2023

413.85

57.17

50.43

Quarter Ended | Quarter Ended |

31.03.2023

**Audited** 

592.15

140.07

140.07

110.85

113.26

1,050.26

Quarter Ended Quarter Ended

0.67

31.03.2023

447.99

37.44

25.59

पिछले अवधि के आकड़ें वर्तमान अवधि की पृष्टि करने के लिए जहाँ पर आवश्यक हो, पूर्नगठित एवं पूर्नव्यवस्थित किये गये हैं। उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई।

**Particulars** 

Net Profit/ (Loss) for the period (before tax Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or

**Particulars** 

कम्पनी के उत्पादों का केवल एक ही खण्ड है।

Total income from operations

Extraordinary items)

Extraordinary items)

मंडल की ओर से कृते बैजल इन्टरनेशनल लिमिटेड

Quarter Ended

**Un-Audited** 

365.46

105.27

105.27

83.63

83.63

0.94

1,050.26

Quarter Ended

30.06.2022

235.51

25.43

हस्ता०/-पंकज डावर (प्रबन्ध निदेशक) DIN: 06479649

## जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड असीम ऊर्जा का प्रसार

मुख्य उपलब्धियां Q1 FY 2023-24

- 765 केवी जीआईएस और 400 जीआईएस केवी की पावर ग्रिंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के लिए बस डक्ट के साथ रायगढ और कोटरा में टर्नकी आधार पर की आपूर्ति
- 12 x 765 केवी, 110 एमवीएआर रिएक्टर और 4 x 400 केवी, 41.67 एमवीएआर बस रिएक्टर की एक निजी ट्रांसिमशन कंपनी से आपूर्ति 400 केवी और 220 केवी जीआईएस की डोमासांद्रा और मायलेसेंडा में कर्नाटक पावर ट्रांसिमशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक
- वैश्विक बिजली पारेषण और बुनियादी ढांचा ईपीसी कंपनी से आपूर्ति 220 केवी जीआईएस की राधनेस्डा में गुजरात एनर्जी ट्रांसिमशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए पावर ट्रांसिमशन ईपीसी कंपनी से आपूर्ति
- PGCIL के NR1 और NR3 एवम कई पैकेजों के तहत पंद्रह सबस्टेशनों के लिए प्राप्त बसबार सुरक्षा नवीनीकरण आदेश
- श्रीलंका में सीलोन विद्युत बोर्ड ( CEB ) से कोलंबो क्षेत्र पश्चिमी प्रांत में SCADA/ADMS नियंत्रण केंद्र का कार्यान्वयन

चालु की गई मुख्य परियोजनाए Q1 FY 2023-24

- कर्नाटक में कोप्पल-नरेंद्र परियोजना के लिए 400 केवी गैस इंस्लेटेड सबस्टेशन का विस्तार जवाहरपुर में दोसन के लिए चौदह 765 केवी जीआईएस बे की आपूर्ति
- खुरजा में तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (THDC) के लिए उन्नीस 400 केवी एयर इंसुलेटेड स्विचगियर (AIS) का प्रावधान वरोरा कर्नूल ट्रांसिंगशन लिमिटेड (WKTL) के लिए 765/400केवी एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन, 24 रिएक्टर और 500एमवीए इंटरकनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर (ICTs) बे के साथ स्थापना
- 220/66केवी गैस इंसुलेटेड स्विचिगयर (GIS), 2x63एमवीए ट्रांसफार्मर के साथ, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसिमशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए (HPPTCL) गुम्मा में विस्तार
- केरल स्टेट इलेक्ट्रिसटी बोर्ड के लिए शोरन्र में 110 केवी गैस इंस्लेटेड सबस्टेशन ( केएसईबी ) का निर्माण

30 जून 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश ₹ मिलियन, प्रति शेयर डाटा छोडकर

1 2		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
क्र. संख्या	विवरण	30.06.2023 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 (लेखापरीक्षित*)	30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 लेखापरीक्षित
1.	कुल आय	7,295.3	7,067.7	6,016.6	28,071.5
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से पूर्व)	386.3	43.4	102.7	381.3
3.	कर पूर्व के लिए शुद्ध लाग/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से बाद)	386.3	(1.2)	102.7	267.5
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से बाद)	282.4	(153.5)	63.6	(14.9)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) के लिए लाभ हानि मिलाकर]	282.4	(219.0)	81.7	(75.8)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	512.1	512.1	512.1	512.1
7.	पिछले वर्ष की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट में दिखाए गए अनुसार (रिवैल्यूएशन रिजर्व) को छोड़कर				10,215.0
8.	अवधि के लिए मूल और तनुकृत इपीएस (प्रत्येक रु 2 का अंकित मूल्य) (रुपयों में)	1.10	(0.60)	0.25	(0.06)

\*31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा परीक्षित आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं और प्रकाशित वर्ष से लेकर वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक आंकड़े हैं।

- क) उपर्युक्त, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए प्रस्तुत किए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का उद्धरण है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.ge.com/in/ge-td-india-limited तथा स्टाक एक्सबेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।
- ख) उपर्युक्त अलेखापरीक्षित परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समिक्षा की गई है तथा उसे दिनांक 08 अगस्त, 2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनमोदित किया गया। 30 जन 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित परिणाम कंपनी के वैद्यानिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जा चका है।

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के लिए (संदीप जंजारिया) प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ढीआईएन: 08905291

CIN-L31102DL1957PLC193993 पंजीकृत कार्यालयः ए-18. प्रथम तल. ओखला इंडस्टियल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 फोन नः 91 11 41610660 वेबसाईटः www.ge.com/in/ge-td-india-limited



दिनांक: अगस्त 08, 2023

टिप्पणी :-

स्थान : चेन्नई

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : टीसी नं. 14/2074-7, मुथूट सेंटर, पुन्नेन मार्ग, तिरुवनंतपुरम-695 034, सीआईएन नं.– यू६५९२२केएल२०१०पीएलसी०२५६२४, निगमित कार्यालय : 12/ए ०१, १३वां तल, परिनी क्रेसेंजो, भूखंड सं. सी38 एवं सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स-जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई-400051, दूरभाष सं.: 022-62728517, प्राधिकत अधिकारी ईमेल आईडी : authorised.officer@muthoot.com, संपर्क हेत् व्यक्ति : गोविंद राम बलराम शर्मा - 9212443181

सार्वजनिक सूचना - संपत्ति की नीलामी-सह-विक्रय

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों का विक्रय वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मृथुट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (यह इसमें इसके उपरांत ''कंपनी'<sup>''</sup> के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अधोवर्णित संपत्तियों (यहां इसमें इसके उपरांत ''प्रतिभूत परिसंपत्ति'' के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इन्हें निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपरांत ''ऋणकर्ताओं'' के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवासन ऋण सुविधाओं के संदर्भ में प्रतिभृति के रूप अपने पास सुरक्षित रख लिया है और अब आगे यह निर्णय लिया गया है कि ऋणकर्ताओं से अतिदेय का अंतिम भुगतान प्राप्त होने तक निम्न राशि के अनुसार प्रतिमूत ऋण राशि और इस राशि पर आगे के ब्याज व व्ययों के संदर्भ में जनता से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं", "वहां जो कुछ भी हैं" और "बिन संसाधन'' आधार / शर्तों पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय कर दिया जाय।

क्र. सं.	उधारकर्ता / ओं का नाम एवं एलएएन	संपत्ति का विवरण	अधिग्रहण प्रकार एवं तिथि रचनागत अधिग्रहण	কুল ৰকাযা খাষা (হু.) भावी ब्याज লাगু	आरक्षित मूल्य (रु.)	ध.रा.ज. (रु.)
	एलएएन नं: 15100079628 गौरव कुमार छोटे जाटव छोटेलाल धर्मपाल क्षण विश्वि एवं समग्र : 24	खसरा सं.—161, ग्राम—दोमई, हापुड़, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, 245101, भारत	13—अप्रेल—2022	रु. 4,36,117 / — दिनांक 09—अग.—2023 के अनुसार	₹. 8,00,000 ∕ —	₹. 80,000 / —

नीलामी तिथि 15—सितंबर—2023 को 10.00 बजे से अप. 03.00 बजे तथा बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 14—सितंबर—2023 विक्रय स्थल गाजियाबाद शाखा : बी2, प्रथम तल, आरडीसी, राजनगर, एसबीआई बैंक के ऊपर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)–201001

इच्छुक बोलीदातागण ऊपर अंकितानुसार तिथि एवं समय पर संपत्तियों का निरीक्षण–अवलोकन कर सकते हैं। **सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्तें :–** 1) विक्रय सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत विरचित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण रूप में यहां नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों तथा इच्छक बोलीदाताओं द्वारा जम किए जानेवाले प्रस्ताव / निविदा प्रलेख में संविर्णत नियमों एवं शर्तों के भी अधीन होगा। 2) सम्पत्ति की बिक्री ऋणभारों, यदि कोई हो, सहित ''जैसी है जहाँ है'' 'जैसी है जो है'', ''जो कुछ भी वहाँ है'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर की जाएगी। 3) नीलामी के अधीन रखी गयी सम्पत्तियों का निरीक्षण उक्त विनिर्दिष्ट एव ऊपर अंकित तिथि एवं समय पर किया जायेगा। सम्पत्तियों के निरीक्षण अथवा निविदाएं जमा करने से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये उक्त सम्पर्क नम्बरों फ संबंधित स्थानों पर तैनात प्राधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क करें। इच्छुक क्रेतागण आरक्षित मूल्य के 10% की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) के लिए ''मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड'' के पक्ष में मुम्बई में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में उक्त सम्पत्ति के लिये अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। 4) इच्छुक बोलीदाता को प्रस्ताव दस्तावेजों के साथ आय कर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड तथा बोलीदाता के पहचान के प्रमाण तथा निवास के प्रमाण जैसे पासपोर्ट, चुनाव आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस इत्यादि की प्रति को भी संलग्न करना होगा। 5) किसी भी स्थिति में सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मुल्य से कम में नई की जाएगी। 6) नीलामी में उपस्थित बोलीदाताओं को निर्धारित आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त रु. 10000/— के गुणकों में अपने प्रस्ताव बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। 7) सभी देयताओं एवं व्ययों जैसे निगम करों, रख–रखाव ⁄ सोसायटी शुल्कों, बिजली एवं पानी के करों तथा स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्कों, अंतरण शुल्कों तथा उक्त सम्पत्तियों से संबंधित बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के संदर्भ में नियत अन्य व्ययों एवं शुल्कों सहित किसी भी बकाये का भुगतान सफल बोलीदाता / क्रेत को ही वहन करना होगा। 8) सफल बोलीदाता / क्रेता को (पूर्व प्रदत्त 10 प्रतिशत ईएमडी समायोजित करने के बाद) अंतिम बोली राशि के 25: का, बिक्री के संदर्भ में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति से अगले कार्यदिवसों के भीतर भुगतान करना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 9) विक्रय मूल्य क शेष 75: का भुगतान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल क्रेता को बिक्री की पुष्टि की सूचना दिए जाने के 15 दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी की स्वेच्छा प लिखित में स्वीकृत ऐसी विस्तारित अवधि में किया जायेगा। 10) प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री के लिए निर्गत इस सूचना वे किसी भी नियम एवं शर्त को परिवर्तित करने का अधिकार होगा। 11) यदि नीलामी की तिथि से एक कार्यदिवस पूर्व तक सभी लागतों, शुल्कों और प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा वहन किये गये व्ययों के साथ सभी देयताओं का उपरोक्त नामित ऋणधारक / सह—ऋणधारक द्वारा भृगतान कर दिया जाता है तो सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी तथा संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त सभी बोलियों को मैसर्स मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रति किसी दायित्व/दावे के बिना उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। एतदद्वारा ऋणधारकों / गारंटरों / बंधककर्ताओं को सरफॉएसि अधिनियम की प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) एवं 9 के अंतर्गत अपने सम्पूर्ण दायित्व को निस्तारित करने तथा इस सूचना की तिथि से ऊपर वर्णित दिवसों के अंदर अद्यतन ब्याज तथा व्ययों के साथ उक्त अंकितानुसार बकाये का भूगतान करने के लिये 30 दिनों की सांविधिक सूचना दी जाती है, अन्यथा उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रतिभृत परिसम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी। ऋणधारक/कों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे 30 दिवसों के अंदर संपत्ति से अपनी अप्रभारित वस्तुओं को हटा दें, अन्यथा इन्हें उनके जोखिम और लागत पर संपत्ति से

हटा दिया जायेगा। स्थान : उत्तर प्रदेश, दिनांक : 10–अगस्त–2023

राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए मांग सुचना निर्गत की थीं।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

# Industrid (i)

# इंडसइंड बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय । 2401, जनरल विमेश रोड, (केंटोनमेंट), पुणे-411 001 शास्त्रा कार्यालय : संगम कॉम्पलेक्स, भूतल, ऑफ मिजां इस्माइल रोड, जयपुर-302006

कब्जा सुचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार] जबकि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों से कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में उल्लिखित

कर्जदार/सह-कर्जदारों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदारों तथा जनसामान्य को एनद्वारा सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित निवमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त कर्जदार/सह-कर्जदारों और जनसामान्य को एतहारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन इंडसइंड वैंक लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

कर्जदारों का नाम तथा पता एवं मांग सूचना की तिथि	सम्पत्ति(यों) का विवरण तथा कब्जे की तिथि	कब्जा सूचना में मांगकृत ग्रांश (रु.)	
<ol> <li>मुकेश अमर सिंह,</li> <li>विमलेश अमर सिंह,</li> <li>मकान सं. 5546, गली नं. 5, न्यू चंद्रावल जवाहर नगर, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली–110007। मांग सूचना दिनांक: 25-अगस्त 2022 ऋण संख्या RHAHDEL000060505 (PR00764482)</li> </ol>	संपत्ति तीसरी मंजिल पर निर्मित संपत्ति का समस्त भाग, जिसकी विशेष छत/टेरेस आसमान तक खुला है, 35.95 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्र पर निर्मित, गली डॉ. मित्रा वाली, आर्य पुरा, रोशनारा रोड, सब्जी मंडी, दिल्ली में स्थित नगर पालिका संख्या 4788 और 4786 वाली निर्मित फ्री होल्ड संपत्ति का एक हिस्सा। कब्जे की तिथि: 7-अगस्त-2023	रु. 1163131/- (रुपये ग्यारह लाख तिरेसठ हजार एक सी इकतीस मात्र) तिथि 23 अगस्त, 2022 तक	
<ol> <li>मदन शर्मा,</li> <li>प्रतिभा शर्मा</li> <li>प्रतिभा शर्मा</li> <li>प्लॉट नंबर 136/यूजी-2, विक्रम एन्क्लेव, शालीमार गार्डन, साहियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 मांग सूचना दिनांक: 30- जून-2021 ऋग संख्या RHAHDEL000048533 (PR00764442)</li> </ol>	संपत्ति फ्लैट संख्या- पूजी-02 का समस्त भाग, कपरी भूतल पर विना छत के अधिकार के, पीछे की तरफ, कवर्ड एरिया 37,16 वर्ग मीटर, फ्लॉट संख्या- 136, माप 111 वर्ग गज, आवासीय कॉलोनी विक्रम एन्क्लेव एक्सटेंशन, ग्राम पसौडा, परगना लोनो, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित है और संपत्ति की सीमाएं : पूर्व - फ्लॉट नं. 137, पश्चिम- अन्य फ्लॉट, उत्तर- अन्य फ्लॉट, दक्षिण- सड़क 30 फीट चौड़ी। कब्जे की तिथि: 5-अगस्त-2023	रु. 1158987/- (रुपये ग्यारह लाख अट्टायन हजार नी सौ सत्तासी मात्र) तिथि 30 जून, 2021 तक	
1.सुभाष महंत, वावा सहदेव सैनी, मकान नं. 558, पहली मंजिल, कमरा नंबर-9, गली नंबर-1, छलेरा सेक्टर-44, नोएडा, उत्तर प्रदेश-2013011		(रुपये दस लाख तैतालीस हजार	

For Kalyan Capitals Limited

Rabindra Kumar Das **CEO & Director** DIN: 00233306

By order of the Board

(Amount in Lacs)

Year Ended

**Audited** 

2,010.43

507.35

507.35

399.10

401.52

1,050.26

YearEnded

31.03.2023

1,515.18

217.86

167.63

2.57

# उत्तर प्रदेश-201301। कवजे की तिथि: 5-अगस्त-2023 रिज मोनी बोरा, ग्राम/टाउन खुटिकटिया, यैद नंबर 19, पीएस नागांव, सदर सब, खुटिकटिया, नागांव, असम - 782428 मांग सूचना दिनांकः 16-नवंबर-2022 ऋण संख्या RHAHDEL000061817 (PR00764490)

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान : दिल्ली/रा.रा.क्षे.

तिथि : 10.08.2023

(अधिकृत प्राधिकारी) कृते इंडसइंड बैंक लिमिटेड

# गुमशुदा की तलाश



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम मुस्कान, पुत्री लम्बोदर झा, पता-मकान नं. एफ-100, गली नंबर-4, खड्डा कॉलोनी, जैतपुर पार्ट-॥, नई दिल्ली । उम्र : 16 वर्ष, कद : 4'9", रंग-सांवला, चेहरा-गोल, शरीर-साधारण, पहनावा- काले रंग की टॉप शर्ट और नीले रंग की जींस पैंट पहने हुए है । जो दिनांक 04.08.2023 को अपने घर से गुम है । इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 373/2023 धारा 363 आईपीसी दिनांक 04.08.2023 को पुलिस

थाना कालिंदी कुंज, दिल्ली में दर्ज है।

स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है । अगर किसी को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें ।

ई-मेल : cic@cbi.gov.in फोन.: 011-24368638, 24368641 फैक्स : 011-24368639 DP/8786/SE/2023

थानाअध्यक्ष पुलिस थाना कालिंदी कुंज, दिल्ली Ph.: 9982683127, 8750870922

त्रिवेन्द्रम (कार्य शाखा)

विवरणों के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के लिये ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

ई-निविदा सूचना सं वी/डब्ल्यू/टीवीसी/20/2023 दिनांक 07/08/2023 भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी और से मंडलीय रेल प्रबंधक/कार्य शाखा/त्रिवेन्द्रम मंडल, त्रिवेन्द्रम-14 हारा हमारे ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in पर दी गई निविदा सूचना तथा संपूर्ण

क सं	विवरण	अनुमानित मूल्य (फ. लाख में)	धरोहर राशि जमा (रु.)
1	नागरकोइल-तिरुनेलवेली खंड : एलसी नंबर 79 के बदले में किमी 317/900-318/000 पर प्रस्तावित उप-मार्ग	275.25	287600
2	एडीईएन/क्यूएलएन उप-मंडल – अम्बालापुझा और हरिप्पडु स्टेशनों (७ नग) के मध्य एलयूएस में संस्थापित पंपों की मैनिंग और प्रचालन तथा उप-मंडल में एलयूएस पर ठेकेदार के पंपों का संघालन।	15.25	30500
3	टीवीसी मंडल – लिफ्टों का प्रावधान – ६ नग (कोयुवेली, मावेलिक्करा, नागेरकोइल टाउन में प्रत्येक में दो लिफ्ट)	110.14	205100
4	कोष्टायम और त्रिचूर 376323 में आरपीएफ बैरक का निर्माण	83.82	167600
5	जोन ए— किमी. 1.850 से किमी. 33.860 (वलाओल नगर और त्रिचूर स्टेशन, दोनों सम्मिलित) तथा त्रिचूर—गुरुवायूर लाइन किमी. 0.000 से 22.630 (गुरुवायूर सहित) त्रिचूर स्थायी मार्ग खंड।	59.97	119900
6	एर्नाकुलम-कोष्टायम-कायमकुलम खंड - एड्टमानुर और कोष्टायम स्टेशनों के मध्य किमी. 58/00-100 पर 1 x 6.10मी. आरसीसी बॉक्स के रूप में एक्स. सेतु सं. 297 (1 x 4.57मी. पीएससी स्लैब) का प्रस्तावित पुनर्निर्माण।	82.11	164200
7	सहायक मंडलीय अभियंता / क्विलॉन क्षेत्राधिकार में एफओबी की मरम्मते एवं रंग-रोगन।	57.20	114400
8	कार्य का नाम : त्रिवेन्द्रम मंडल — उप मार्गों की बाद का उन्मूलन करना।	303.26	301600
9	सेतु सं. 132, 178 (शोरानूर-एर्नाकुलम), 296, 148, 161 (एर्नाकुलम-कोट्टायम-किलोन), वीआर5 और ईएके-31 पर जल स्तर की निगरानी प्रणाली का वार्षिक अनुरक्षण।	7.94	15900
10	त्रिवेन्द्रम मंडल – मावेलिक्करा पी. वे खंड में याडौँ का ध्यान रखना	59.75	119500

क्रम संख्या 3 व 6 के लिये : दस। क्रम संख्या 7 व 8 के लिये : छह। निविदा समापन तिथि एवं समय : क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक के लिये : 07-09-23 को मध्या. 11

**टिप्पणी** : वेबसाइट पर बाद में अपलोड किए गए किसी भी सुधार या संशोधन के लिये निर्गत किसी भी शुद्धिपत्र की जांच करना निविदाकर्ता का दायित्व है, निविदा जमा करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा

वरिष्ठ मंडलीय अभियंता/सीओआरडीएन

Follow us on: X twitter.com/GMSRailway

### बॉय राइट इम्पेक्स लिमिटेड (पूर्व में बिकंघम इंडस्टीज लिमिटेड विदित)

CIN: L22100DL1983PLC314401 पंजी. कार्यालय: 38, जी/एफ, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड्गंज, मध्य दिल्ली-110055 इं-मेल आईडी: buckingham1983@yahoo.com वेबसाईट: www.buyrightimpex.in फोन: 0120-4039976 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैण्डएलॉन अनेकेक्षित चितीय परिणाम के विवरण का सार

(कलासामें पूर्व वर्ष में (30.06.2023) समाप्त तत्स्थानीय (31.03.2023 (नीचे टिप्पणी देखें) 3 महीने (31.03.2023) (30.06.2022) ( अनंकेक्षित ) ( अंकेक्षित ) ( अनंकेक्षित ) ( अंकेक्षित ) 654.89 557.67 1212.52 परिचालनों से कुल आप अवधि के लिये तुद्ध लाभ (तानि) (कर, विशिष्ट एवं/अधवा अधाधारण महीं धे 22.48 2.76 39.53 0.72 3. कर से पूर्व अवधि के लिए जुद्ध लाध (हानि) (वितिष्ट एवं/ अथवा असाधारण 2.76 39.53 0.72 22.48 कर से बाद अवधि के लिये मुद्ध लाभ (हानि) (विशिष्ट एवं/अधवः असाधारण 0.55 7.76 2.76 29.10 अवधि हेत् कुल ल्यामक आय ( अवधि हेत कर के बाद) लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आप (कर के बाद) से शामिल) 1641.06 1641.06 1641.06 24.50 इक्किटी लेकर पूंजी आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पर के अनुसार पुरर्ज्श्यांकन अरक्षितों के असिरिक आर्शिक 0.00 0.00 0.00 (जारी तथा अवसद्ध प्रचलनों के लिए)

1. उपरोक्त विचरण सेबी (सृचीपन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई निमारी मिलीय परिणामों के सम्पूर्ण मिनरण प्रारूप का सार है। समात तिमारी के बिलीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीयद्ध सत्ता की येवसाइटों पर उपलब्ध है।

0.02

2. लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ / हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीय मदों पर प्रभाव को

 अ जो भी लागु हो, इंड-एएस नियमायली / एएस नियमायली के अनुसार विशिष्ट एवं अथवा अलाभारण गर्दों को लाभ तथा हानि के विवरण में समायीजित किया गवा है।

कुले, बाई गड़ट इम्पेयस लिमिटेड

(पूर्व में बकियम इंडरट्रीज लिमिटेड चिदित

तिथि : 08.08.2023

नाम । रहित विरुत्त पदनाम : पूर्ण-कालिक निदेशक DIN 10051907

0.22

# दक्षिण रेलवे

लोको कार्य, आयनावरम, चेन्नई-600023 ई-निविदा सूचना

खुली निविदा सुचना सं. LWPER NMGHS Conv 23 के राष्ट्रपति की ओर से मख्य वर्कशाप प्रबंधक / लोको कार्य (आयनावरम, दक्षिण रेलवे,

चेन्नई-600023 हारा हमारी ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in में जारी निविदा - सूचना के अनसार निम्न आनलाइन खली निविदा आमंत्रित है। कार्यों/सेवा अनुबंध के लिये ई-निविदा के लिये आवेदन करने के इच्छक निविदाकारों को ई-निविदा के उक्त पोर्टल पर सुचीकरण कराना होगा तथा केवल ऑनलाइन निविदा स्वीकार की जाएगी। बोली प्रतिभृति राशि का भगतान केवल ऑनलाइन भगतान पद्धति से किया जायेगा। ई-निविदा, में भागीदारी के लिये आवश्यक डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निविदाकारों का होगा।

काय का नाम	परम्परागत कडम्ड आइसाएफबाजा काचज का एनएमजीएचएस कोचेज में रूपांतरण		
मात्रा	65 कोचेज		
अनुबंध अवधि	12 माह		
अनुमानित निविदा मूल्य	रू.6,32,76,695.95/- जिसमें 18% की दर से जीएसटी है		
बोली प्रतिभूति जमा राशि	₹. 4,66, 400/-		
निविदा बुकलेट का मूल्य	निल		
निविदा की तय तिथि	04.09.2023 के 15.00 बजे		
वेबसाइट का विवरण	www.ireps.gov. in		
	1		

# अनुमानित निविदा मुल्य, बोली प्रतिभृति राशि तथा बोली जमा करने का विवरण उक्त ई-


पोर्टल में दिया गया है। 2. उक्त पोर्टल के माध्यम से फ्लोट की गई निविदा के लिये ऑनलाइन बोली डिजीटली

- 3. निविदाकार बोली से पर्व आईआरपीएस पोर्टल में रेलवे प्रशासन द्वारा जारी आवश्यक
- शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, का अनुसरण करें। 4. प्रस्ताव तथा बोली प्रतिभृति की वैधता निविदा खुलने की तिथि से न्युनतम 60 दिन अथवा
- पारस्परिक अनुबंध द्वारा यदि वांछित हो आगे विस्तारित अवधि तक बनी रहेगी। बोली प्रतिभित राशि के बिना अथवा कम बोली प्रतिभित राशि के साथ आईआरईपीएस
- पोर्टल पर जमा की गई निविदा तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। 6. रेलवे को बिना कारण बताए निविदा को निरस्त करने का अधिकार है ! 7. निविदा से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निविदा दस्तावेज में वर्णित है।

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

www.readwhere.com





Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] \*Paid up Equity Share Capital

S.

3

NO.

Earning Per Share (of Rs. 2/- each) Basic and diluted (not annualised) The above is an extract of the detailed format of result for Quarter ended on 30th June, 2023 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said results are available on the website of BSE at www.bseindia.com as well as on the Company's website at www.akashdeepmetal.in.2)Current Year: 52513105 Equity Shares of Rs.2/- each, Previous Year: 10502621 Equity Shares of Rs.10/- each [from 23.02.2023 onwards: 52513105 Equity Shares of Rs.2/-each(splitted Rs.10/- each to Rs.2/- each)]. The Key Standalone Financial information for the Quarter Ended on 30<sup>th</sup> June, 2023 are given below:

S. NO. Turnover Profit before tax Profit after tax

Place: Ghaziabad Dated: 07.08.2023